

आपकी व्यवहार सहायता योजना के बारे में फैसले लेना



सहायता के साथ फैसला लेना



आपको अपनी व्यवहार सहायता योजना के बारे में फैसले लेने में शामिल होने का अधिकार है।



आपको अपनी योजना के बारे में फैसले लेने के लिए सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।



अपनी व्यवहार सहायता योजना (Behaviour Support Plan) के बारे में 4 बड़े फैसले लेने होते हैं।



ये फैसले हैं:


1. मेरी व्यवहार सहायता (Behaviour Support) टीम में किसे शामिल होना चाहिए



2. मेरे बारे में लोगों के पास क्या जानकारी होनी चाहिए



3. किस बात से मुझे बढ़िया जीवन व्यतीत करने में मदद मिलेगी



4. क्या मैं अपनी योजना बदलना चाहता/ती हूँ



आपका व्यवहार सहायता पेशेवर और आपके सहायक इन फैसलों के बारे में आपके साथ बात करेंगे।



यदि आप अपनी व्यवहार सहायता योजना से खुश नहीं हैं, तो आप निम्नलिखित से बात कर सकते/ती हैं

- मित्र/सहेली
- परिवार
- सहायता कर्मी



यदि आप किसी अन्य व्यक्ति से बात करना चाहते/ती हैं, तो आप **एडवोकेट (पक्षसमर्थक)** को कॉल कर सकते/ती हैं।



एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जो आपके अधिकारों के लिए बोलने में आपकी सहायता करता है।



यह वेबसाइट किसी एडवोकेट को खोजने में आपकी मदद कर सकती है।

www.dana.org.au/find-an-advocate



व्यवहार सहायता के बारे में और अधिक जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते/ती हैं।

www.decidingwithsupport.flinders.edu.au

